

ता: 21.11.2019

समय: ३ घंटे

कुल अंक: १००

सूचना: १) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

- प्र.१. निम्नलिखित अवतरणों की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। (२४)
- अ) मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्मभर की घटनाएँ एक-एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं.....
अथवा
- आ) इस बात की उसे फिक्र नहीं होने चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है, कौन क्या कहता है। बस यह देखना चाहिए कि फाइल क्या कहती है?
- इ) 'बेटा, मैदान से भागकर शिविर में आ बैठने की सुखद मजबूरी का नाम इज्जत है। इज्जतदार ऊंची टहनी पर दूसरे के घोंसले में अंडे देता है।'
अथवा
- ई) भारतीय इतिहास में स्वतन्त्रता-संग्राम और सेल्लुलर जेल एक दूसरे के पूरक की तरह हैं क्योंकि आजादी के कट्टर और क्रांतिकारी सिपाही इस जेल के मेहमान हुआ करते थे।
- प्र.२) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। (३०)
- i) 'परीक्षा' प्रेमचंदजी की यथार्थोन्मुख आदर्शवादी कहानी है-स्पष्ट कीजिए
अथवा
- ii) 'बहादुर' कहानी मध्यवर्गीय समाज के मानस का मार्मिक चित्रण करती है-इस कथन को स्पष्ट कीजिए
- iii) शाहजहाँ के आँसू एकांकी नाटक की ऐतिहासिकता स्पष्ट कीजिए
अथवा
- iv) 'हंसिनी की भविष्यवाणी' लोककथा का प्रतिपाद्य लिखिए
- प्र.३) निम्नलिखित प्रश्नों में से **किसी एक** प्रश्न का उत्तर लिखिए। (१५)
- i) 'निर्वासित' कहानी समाज के नयी पीढ़ी में बढ़ती स्वार्थवृत्ति का यथार्थ चित्रण करती है। सोदाहरण स्पष्ट कीजिए
- ii) समाज सेवा निबंध में वर्णित आदर्श समाज के लक्षणों का वर्णन कीजिए
- प्र.४) टिप्पणियाँ लिखिए। (१६)
- i) लहनासिंह की वीरता
अथवा
- ii) 'बेटी' कहानी के मुन्नी का परिवार

- iii) 'सद्गुरु का कहना है' व्यंग्य की प्रतिकात्मकता
अथवा
iv) 'शाहजहाँ के आँसू' नाटक की पात्र जहाँआरा

प्र.५)

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए- (सभी प्रश्न अनिवार्य हैं)

(१५)

- १) लहनासिंह सेना में किस ओहदे पर नियुक्त था?
- २) देवगढ़ के दिवान ने किस पद के लिए विज्ञापन दिया था?
- ३) 'दिल्ली में एक मौत' कहानी में किसकी मौत हुई थी?
- ४) फैसला कहानी के पात्र शुक्लाजीने किस पद से त्यागपत्र दिया था?
- ५) बहादुर कहानी के लेखक का नाम लिखिए
- ६) बेटी कहानी की नायिका मुन्नी की सहेली का नाम क्या था?
- ७) देवगढ़ रियासत के दीवान के पद पर किस की नियुक्ति हुई?
- ८) परीक्षा कहानी के किसान की मदद किसने की?
- ९) बहादुर पर कितने रुपए चुराने का इल्जाम लगाया गया?
- १०) महात्मा गांधीजी के मुख्याध्यापक कौन थे?
- ११) शाहजहाँ की कन्या का नाम क्या था?
- १२) पर्यटन की दृष्टि से अंडमान का कौसा द्वीप महत्वपूर्ण है?
- १३) 'समाज सेवा' निबंध के निबंधकार कौन हैं?
- १४) मुराद की हत्या की खबर शाहजहाँ को कौन देता है?
- १५) शाहजहाँ को किस स्थान पर बंदी बना कर रखा गया था?
